



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 16—अप्रैल 22, 2005 (चैत्र 26, 1927)
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 16—APRIL 22, 2005 (CHAITRA 26, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued
by
Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 मार्च 2005

सं. एस-35017/02/04-(एसएस-II).--जबकि मैसर्स कमल बस सर्विस लिमिटेड (एतदुपरांत प्रतिष्ठान के रूप में संदर्भित) को दिनांक 28.06.1962 की अधिसूचना संख्या एफ-14/25/62-लैब द्वारा तत्कालीन कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (एतदुपरांत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 17(1) (क) के तहत दिनांक 06.09.1964 से छूट प्रदान की गई थी।

और जबकि

- प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60 के अनुसार सांविधिक व्यक्त दर के तुल्य व्यक्त दर की घोषणा करने में विफल रहा है।
- प्रतिष्ठान ने अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त छूट को जारी न रखने की इच्छा व्यक्त की है।

अतः, अब, कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदुपरांत उक्त प्रतिष्ठान को प्राप्त छूट को 31.3.2002 से रद्द करती है।

संयुक्ता राय
अवर सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2005

सं. एन-15/13/1/2/2004-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 मार्च, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितरक्षण) विनियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितरक्षण आंध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थातः--

“जिला रांतेइडी में ताण्डूर मण्डल के राजहमम-ताण्डूर, गौतापोर, गोपनपल्ली, केरकतूर, चेंगेल, चेंगेकुन, एल्यकन्ड, कानापुर, अन्ताराम (अन्ताराम धान्वा ओड दस्तगिरिपेट सहित) खान्नापूर और सईपुर की सीमाओं के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र।”

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

दिनांक 28 मार्च 2005

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

नई दिल्ली-110 066, दिनांक 23 मार्च 2005

सं. प्रन-15/13/6/7/2004-यो. एवं वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 मार्च, 2005 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आंध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा (चिकित्सा हितलाभ) नियम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ केवल राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात:-

“जिला तथा तालुक कोल्लम में पुदुक्कुलम राजस्व ग्राम।”

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

मुम्बई-400 013, दिनांक 24 मार्च 2005

सं. 31-व्ही-34-11/स्था-सं./समन्वय एकक--दिनांक 16/09/2004 इसी संख्या की कार्यालय अधिसूचना का आंशिक आशोधन करते हुए, क.रा.बी. (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए-1 के अन्तर्गत नांदेड क्षेत्र के लिए बनायी गयी स्थानीय समिति की सदस्य सूची में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं।

विनियम 10 - ए - 1 (सी) के अन्तर्गत

वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, नागपुर

के बदले में पढ़ें

वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी पुणे।

आदेशानुसार
ए. के. सिन्हा
अपर आयुक्त

सं. 31-व्ही-34-11/स्था-सं./समन्वय एकक--दिनांक 16/09/2004 इसी संख्या की कार्यालय अधिसूचना का आंशिक आशोधन करते हुए, क.रा.बी. (सामान्य) विनियम 1950 के विनियम 10-ए-1 के अन्तर्गत चिखलथाना क्षेत्र के लिए बनायी गयी स्थानीय समिति की सदस्य सूची में निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं।

विनियम 10 - ए - 1 (सी) के अन्तर्गत

वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी, नागपुर

के बदले में पढ़ें

वैद्यकीय प्रशासन अधिकारी पुणे।

आदेशानुसार
ए. के. सिन्हा
अपर आयुक्त

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 21 अगस्त, 1966 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आयुक्त भर्ती नियम, 1966 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 5900-200-6700/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 18400-500-22400/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 10 के अंतर्गत “प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण” के स्थान पर “प्रतिनियुक्ति” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 10 के शीर्षक में “विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली शक्तियों का प्रतिशत” शब्दों के स्थान पर “विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत” को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 11 के शीर्षक में “स्थानांतरण” शब्द के स्थान पर “समावेशन” शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राव
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यायी सेवा
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 21 अप्रैल, 1990 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 4500-150-5700/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 14300-400-18300/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।

- (ii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 9 जून, 2001 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सूचना सेवा) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 21 दिसम्बर, 1999 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त) भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 5 के अंतर्गत "चयन" शब्द के स्थान पर "चयन तथा वरिष्ठता" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 21 दिसम्बर, 1991 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (अधीक्षक अभियंता) भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्य अभियंता (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 1 के अंतर्गत "अधीक्षक अभियंता" के पदनाम के स्थान पर "मुख्य अभियंता" पदनाम प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 3700-125-4700-150-5000/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 14300-400-18300/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (iii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (v) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 15 जून, 1985 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निदेशक (सतर्कता) भर्ती नियम, 1985 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निदेशक (सतर्कता) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 3700-125-4700-150-5000/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 12000-375-16500/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 10 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 10 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 11 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 9 जून, 2001 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निदेशक, (सूचना सेवा) भर्ती नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निदेशक (सूचना सेवा) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 17 नवम्बर, 1984 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप निदेशक (सतर्कता) भर्ती नियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उपनिदेशक (सतर्कता) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 3000-100-3500-125-4500/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 10000-325-15200/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 10 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 10 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 11 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 9 जून, 2001 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उप निदेशक (सूचना सेवाएं) भर्ती नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उपनिदेशक (सूचना सेवाएं) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 मई, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कार्यकारी अभियन्ता (सिविल) भर्ती नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कार्यकारी अभियन्ता (सिविल) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 मई, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कार्यकारी अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) भर्ती नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कार्यकारी अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,

उपनिदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उपनिदेशक (राजभाषा) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 5 के अंतर्गत "चयन" शब्द के स्थान पर "चयन तथा चरिष्ठता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 30 अगस्त, 1999 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक भविष्य निधि आयुक्त भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक भविष्य निधि आयुक्त (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 5 के अंतर्गत "चयन" शब्द के स्थान पर "चयन तथा चरिष्ठता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 30 अक्टूबर, 1999 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (सतर्कता) भर्ती नियम, 1999 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (सतर्कता) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 9 जून, 2001 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (सूचना सेवाएं) भर्ती नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (सूचना सेवाएं) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 मई, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक अभियन्ता (सिविल) भर्ती नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक अभियन्ता (सिविल) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 मई, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक अभियन्ता (इलेक्ट्रिकल) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 10 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 11 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 जून, 2002 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी भर्ती नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आंचलिक लेखा परीक्षा अधिकारी (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 2 जनवरी, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक निदेशक (राजभाषा) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 जून, 2002 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (सहायक ऑडिट ऑफिसर) भर्ती नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक ऑडिट ऑफिसर (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 2 जनवरी, 1999 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (आशुलिपिक सेवा) भर्ती नियम, 1998 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, आशुलिपिक सेवा (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 5 के अंतर्गत "चयन" शब्द के स्थान पर "चयन तथा वरिष्ठता" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 27 सितम्बर, 2003 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (अनुभाग अधिकारी) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग अधिकारी (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत" को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 10 फरवरी, 1984 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (कनिष्ठ विश्लेषक) भर्ती नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कनिष्ठ विश्लेषक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 2000-60-2300-ईबी-75-3200-100-3500 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 6500-200-10500 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

- (iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 3 जनवरी, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (कल्याण अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कल्याण अधिकारी (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 2000-60-2300-ईबी-75-3200-100-3500 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 6500-200-10500 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 9 जून, 2001 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (प्रोग्रामर) भर्ती नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रोग्रामर (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 5 के अंतर्गत "चयन" शब्द के स्थान पर "चयन तथा वरिष्ठता" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 17 जनवरी, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 9 जून, 2001 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (सहायक प्रोग्रामर) भर्ती नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक प्रोग्रामर (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 5 के अंतर्गत "चयन" शब्द के स्थान पर "चयन तथा वरिष्ठता" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 जून, 2002 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (ऑडिटर) भर्ती नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, ऑडिटर (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 15 मार्च, 1986 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (सतर्कता सहायक) भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सतर्कता सहायक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 10 फरवरी, 1984 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (अनुसंधान सहायक) भर्ती नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुसंधान सहायक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 1640-60-2600-ईबी-75-2900/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 5500-175-9000/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 10 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 10 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

- (iv) कालम 11 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 27 सितम्बर, 2003 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक (मुख्यालय) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सहायक (मुख्यालय) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 6 जून, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (पुस्तकालय सूचना सहायक) भर्ती नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पुस्तकालय सूचना सहायक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 1400-40-1600-50-2300-ईबी-60-2600/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 5500-175-9000/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान

पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 1 जून, 2002 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (प्रवर्तन अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी) भर्ती नियम, 2002 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, प्रवर्तन अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 9 जून, 1983 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, निदेशक (हिन्दी अनुवादक ग्रेड-II) भर्ती नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची के कालम 1 के अंतर्गत "हिन्दी अनुवादक ग्रेड-II" के पदनाम के स्थान पर "कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक" पदनाम प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 1400-40-1800-ईबी-50-2300/-रुपये के

वेतनमान के स्थान पर 5000-150-8000/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।

- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

- (iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 28 जुलाई, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग पर्यवेक्षक (प्रधान लिपिक) (क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, अनुभाग पर्यवेक्षक (प्रधान लिपिक) (क्षेत्रीय कार्यालय) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 1400-40-1800-ईबी-50-2300/-रुपये के वेतनमान के स्थान पर 5000-150-8000/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 24 फरवरी, 1990 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,

(विधि सहायक) भर्ती नियम, 1990 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, विधि सहायक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 1400-40-1800-ईबी-50-2300/- रुपये के वेतनमान के स्थान पर 5000-150-8000/- रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 2 अप्रैल, 1988 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (सांख्यिकीय सहायक) भर्ती नियम, 1988 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, सांख्यिकीय सहायक (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 1400-40-1800-ईबी-50-2300 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 5000-150-8000 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची के कालम 11 के अंतर्गत "प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण" के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

(iv) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 8 नवम्बर, 2003 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-क) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-क (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 8 नवम्बर, 2003 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-ख) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-ख (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 8 नवम्बर, 2003 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-ग) भर्ती नियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर ग्रेड-ग (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 17 जनवरी, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II, ग्रेड-I एवं विशेष ग्रेड) भर्ती नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण ग्रेड, ग्रेड-II, ग्रेड-I एवं विशेष ग्रेड) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान

पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

- (ii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 31 जुलाई, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वरिष्ठ गेस्टेटर ऑपरेटर (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, वरिष्ठ गेस्टेटर ऑपरेटर (मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 950-20-1150-ईबी-25-1400 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 3050-75-3950-80-4590 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 22 फरवरी, 1986 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इलेक्ट्रिशियन (वायर मैन) भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, इलेक्ट्रिशियन (बायर मैन) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 950-20-1150-ईबी-25-1400 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 3050-75-3950-80-4590 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 10 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 11 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 29 नवम्बर, 1986 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (लिफ्ट ऑपरेटर) भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, लिफ्ट ऑपरेटर (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 950-20-1150-ईबी-25-1400 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 3050-75-3950-80-4590 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 26 जुलाई, 1986 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (पलम्बर एवं पम्प ऑपरेटर) भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, पलम्बर एवं पम्प ऑपरेटर (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 950-20-1150-ईबी-25-1400 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 3050-75-3950-80-4590 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 25 अक्टूबर, 1986 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (कुक-कम-गेस्ट हाऊस अटेंडेंट) भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कुक-कम-गेस्ट हाऊस अटेंडेंट (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 750-12-870-ईबी-14-940 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 3050-75-3950-80-4590 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान

पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।

- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 3 जनवरी, 1987 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बाईंडर भर्ती नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बाईंडर (संशोधन) भर्ती नियम, 2003 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 825-15-900-ईबी-20-1200 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 2750-70-3800-75-4400 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 18 जुलाई, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कनिष्ठ गेस्टेटर ऑपरेटर (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, कनिष्ठ गेस्टेटर ऑपरेटर (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) (संशोधन) भर्ती नियम, 2003 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 800-15-1010-ईबी-20-1150 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 2650-65-3300-70-4000 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 31 जुलाई, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रिकार्ड सार्टर (वरिष्ठ) (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) भर्ती नियम, 1992 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रिकार्ड सार्टर (वरिष्ठ) (मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय) (संशोधन) भर्ती नियम, 2003 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 800-15-1010-ईबी-20-1150 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 2650-65-3300-70-4000 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 31 जुलाई, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (जमादार/दफ्तरी/रिकार्ड सार्टर (कनिष्ठ) भर्ती नियम, 1992 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (जमादार/दफ्तरी/रिकार्ड सार्टर (कनिष्ठ) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 775-12-871-ईबी-14-1025 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 2610-60-3150-65-3540 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 13 मार्च, 2004 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (मल्टी टास्क अटेंडेंट) भर्ती नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, (मल्टी टास्क अटेंडेंट) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

सं. एच.आर.डी./1(1)/2004/समीक्षा/भर्ती नियम--कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 5घ की उपधारा 7(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2003 को जारी आदेश के संदर्भ में दिनांक 31 जुलाई, 1992 के गजट में अधिसूचित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हेल्पर, स्वीपर (सफाईवाला) भर्ती नियम, 1992 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

1. ये नियम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, हेल्पर, स्वीपर (सफाईवाला) (संशोधन) भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे।

- (i) अधिसूचित भर्ती नियम के साथ संलग्न अनुसूची के कालम 4 के अंतर्गत 750-12-870-ईबी-14-940 रुपये के वेतनमान के स्थान पर 2550-55-2660-60-3200 रुपये वेतनमान प्रतिस्थापित किया जाये।
- (ii) अनुसूची में कालम 11 के शीर्षक में "विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत को प्रतिस्थापित किया जाए।
- (iii) कालम 12 के शीर्षक में "स्थानांतरण" शब्द के स्थान पर "समावेशन" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

अनिरुद्ध राय
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा
सचिव, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड,
कर्मचारी भविष्य निधि

दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इन्डिया

चैन्नई-600 034, दिनांक 17 मार्च 2005

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

3एससीए(5)/3/2003-2004 : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की अधिसूचना नं 4सीए(1)/27/1976-77 तिथि 5 मार्च, 1977, 4 एससीए(1)/12/1978-79 तिथि 24 मार्च 1979, 4 एससीए(1)/4/1982-83 तिथि 31 मार्च, 1983, 3 एससीए(4)/10/1983-84 तिथि 31 मार्च 1984, 3 एससीए(4)/8/1990-91 तिथि 1 दिसम्बर 1990, 3 एससीए(4)/9/1991-92 तिथि 1 जनवरी 1992, 3एससीए(4)/3/993-94 तिथि 11 जनवरी 1994, 3एससीए(4)/4/994-95 तिथि 22 फरवरी 1995, 3एससीए(4)/2/1995-96 तिथि 27 फरवरी 1996, 3एससीए(4)/4/1995-96 तिथि 12 मार्च 1996, 3एससीए(4)/3/1996-97 तिथि 11 दिसम्बर 1996, 3एससीए(4)/5/1996-97 तिथि 7 अप्रैल 1997, 3एससीए(4)/3/1997-98 तिथि 31 मार्च 1998, 3एससीए(4)/4/1998-99 तिथि 7 मई 1999, 3एससीए(4)/4/1999-2000 तिथि 17 अप्रैल 2000, 3एससीए(4)/5/2000-2001 तिथि 12 दिसम्बर 2001, 3 डबल्यूसीए(4)/1/2000-2001 तिथि 15 जनवरी 2001 3एससीए(4)/5/2001-2002 तिथि 21 मई 2002, 3एससीए(4)/1/2002-2003 तिथि 15 जनवरी 2003, 3एससीए(4)/4/2002-2003 तिथि 30 अप्रैल 2003, 25सीए(24)/1995-96 तिथि 7 जुलाई 2003 के संदर्भ में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके नाम के आगे दी गई तिथियों से पुनः स्थापित कर दिया गया है ।

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
1.	005414 श्री यश बीर जगदी एसीए 16/14 2 फ्लोर, डबल्यू ई ए करोल बाग नई दिल्ली-110005	15/09/2003	8.	018642 श्री सुब्बाराज ए एसीए 477, पी.जे.एन. राड, विल्लुपुरम-605602	06/11/2003
2.	006618 श्री शिवसुब्रमन्यम कृष्णन एफसीए बी 1, 2 फ्लोर, रोजी मालिन्य अपाठ 27 गोपालपुरम फर्स्ट स्ट्रीट चैन्नई-600086	21/01/2004	9.	018691 श्री श्रीरमन जे एसीए मैसर्स रमन एसोसिएट्स, 1 फ्लोर आर ई अपार्टमेंट्स 70 आर्या गोउडा रोड, वैस्ट मेम्बलम, चैन्नई-600033	29/01/2004
3.	012385 श्री परमानाथन वी एसीए एसएफ 588/1-बी अममापलायम, अनुपूरुल्लायम पीओ, तिरुपुर-641652	07/10/2003	10.	018901 श्री मुरुगावेल एस एस एसीए विधा अपार्टमेंट्स -11, 22 बाजार स्ट्रीट नीलापक्कम, के के नगर वैस्ट, चैन्नई-600078	24/10/2003
4.	012696 श्री अईयास्वामी जी एफसीए नं. 90 अराकियासेमी रोड(ई) आर एस पुरम, कोयंबटोर-641002	08/03/2004	11.	018991 श्री रामानाथन टी जी एफसीए 'कल्याण लक्ष्मी' 11 फ्लोर, 6, फर्स्ट मेन रोड कस्तूरबा नगर, अड्यार, चैन्नई-600020	29/10/2003
5.	013810 श्री स्वामीनाथन अम्पाय्य एसीए 14 स्ट्रिक्स्टर एवेन्यू, हिल्सबोरो, ऑकलैंड, न्यू जीलैंड	16/02/2004	12.	019167 श्री राधाकृष्णन वी एफसीए वैकिटा निवास, कावेरी कम्पाउंड, उडुपी डिस्ट्रिक्ट, साऊथ कर्नाट, पानीयूर पोस्ट-574140	03/11/2003
6.	016015 श्री वेधनाथन एस एसीए 4/16, फर्स्ट क्रॉस स्ट्रीट, कृष्णम गार्डन, अड्यार चैन्नई-600020	19/02/2004	13.	019506 श्री अग्रवाल आर राजेंद्रा एफसीए 24 पेरिस एवेन्यू, एडीसन, एन जे 08820, यू एम ए	27/02/2004
7.	018263 श्री विलियम जॉन एसीए योगेश पार्क, प्लॉट नं. 145, फ्लैट नं. 9, कुल्ला नगर, पुणे-411040	28/11/2003			

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
14.	020262 श्री हलीम ए के एसीए ऑडिटर, अल स्लीपी, पी ओ बॉक्स 31300, शरजाह, यू ए ई	11/03/2004	24.	023725 श्री थिरुमाला सत्यनारायण पी एसीए फ्लैट नं. 202, प्रगति चैम्बर्स, 3-6-66 स्काईलाईन सिनेमा रोड, बलीरबाग, हैदराबाद-500029	27/01/2004
15.	020793 श्री राजा राधिना साई जी एसीए चौफ ऑफिसर, आन्ध्र बैंक-हैड ऑफिस रिकवरी मैनेजमेंट डिवीजन (3 फ्लोर) ड. पत्तामी भवन, 5-9-11 सईफाबाद हैदराबाद-500004	10/12/2003	25.	023878 श्री वर्धन एम एस एसीए नं. 10/6, फस्ट फ्लोर, आईएमपीन स्ट्रीट वेस्ट मैबलम, चैन्नई-600033	16/01/2004
16.	021086 श्री चारी टी वी टी एसीए 9 तैन्जोंग रहू रोड, # 15-04 द बॉटरसाईड सिंगापोर- 436894	28/10/2003	26.	024767 श्री कृष्ण एस एफसीए फ्लैट नं. 3009 जी-3, 3 ^अ साई अपार्टमेंट्स V मेन रोड, मादिपक्कम, चैन्नई-600091	16/03/2004
17.	021410 श्री नागराजन आर एसीए मैसर्स ऐसन बिल्डर्स, प्लॉट 1500, 16 मेन रोड, अन्ना नगर वेस्ट, चैन्नई-600040	18/12/2003	27.	025060 श्री श्रीराम आर एसीए फ्लैट 1, 2 फ्लोर श्रीवात्सा श्री अपार्टमेंट्स 13, 4 मेन रोड, आर ए पुरम, चैन्नई-600028	09/02/2004
18.	021653 श्री सम्पात कुमार एस एफसीए फ्लैट ए, 7ई रिगल पाम गार्डन्स, 383 ताम्बारम क्लबघर रोड, क्लबघरी, चैन्नई-600042	04/12/2003	28.	025493 श्री शेबा चैरी एम वी एन एफसीए 82 एससबीआई ऑफिसर्स कालोनी, मूसाराम बाग, हैदराबाद-500036	03/11/2003
19.	021672 श्री बाबू यू वी एम एसीए 100 वेस्टगेट ब्रिज, एडीसन एन जे 08820, यू एस ए	28/10/2003	29.	025812 श्री रामा कृष्णा कुमार सी एसीए 123/107 II फ्लोर, 27 क्रास, 2 मेन, 7 ब्लाक, जयानगर, बंगलूर-560082	02/01/2004
20.	022566 श्री सत्यनारायण जी एफसीए एच नं. 3-6-378/1, स्ट्रीट नं. 2 हिम्याल नगर, हैदराबाद-500029	23/01/2004	30.	026189 श्री मीनाक्षीसुंदरम एस एसीए 1-280, हिलक्रेस्ट एक्वेयू मिस्सिसाउगा एलडबी 4एल3, कनाडा	15/03/2004
21.	023157 मिस लक्ष्मी विद्यासागर एसीए 11606 कार्ल्युड लेन, हाउसटन, टी एक्स 77099, यू एस ए	17/10/2003	31.	026587 श्री रवि कुमार जी एसीए 1-11-252/12, एच नं. 153, प्लॉट नं. 10 एम एन नगर, बेगमपेट, सिकंदराबाद-500016	19/02/2004
22.	023614 श्री नागराज जी एफसीए 2 प्लाजा रेजीडेंसी, मालनी कालोनी, चिन्ना योकाट्टा, न्यू बौवनपैल्ली पीओ (एमवीएन), सिकंदराबाद-500009	18/09/2003	32.	026697 श्री मेका नरेन्द्रा प्रसाद एसीए 5520, सिंग हाऊस ब्रिज, अपार्ट. नं. 16, प्लोस्टन, कैलीफोर्निया-94588, यू एस ए	17/12/2003
23.	023630 श्री प्रसादा रॉव वी के एफसीए 8-3-167/0/7/2, लक्ष्मी नगर, कंयर ऑफ ड. लक्ष्मी, अपो. कौनरा बैंक कल्याण नगर ब्रांच, हैदराबाद-500038	01/01/2004	33.	026768 श्री विजयाकुमार आर वी एफसीए सत्यनारायण पेंट पी ओ लिमिटेड केल्सरी-583201	17/09/2003
			34.	026814 मिस रोमा हेब्बार एसीए 436, 9 क्रास, 4 मेन एचआई जी कालोनी आरएमवी सेकंड स्टेज, बंगलूर-560094	05/01/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
5.	027111 श्री मुरली कृष्णन एम एस एसीए 38, रेडिगी अपार्टमेंट्स, 7-1-32/ए, लौला नगर, अमीरपेट, हैदराबाद-500016	26/12/2003	45.	029025 श्री भुरली एस एसीए मैनेजर - इंटरनल ऑडिट, अल मनसूरी स्पेशलाईज्ड इंज. पी ओ बाक्स 3374, अबू धाबी, यूएई	28/11/2003
6.	027673 श्री हरीश प्रभु बी एफसीए हेड ऑफ ट्रेजरी एन्ड क्रेडिट सर्विसिज रैल मार्किट्स (मिडल ईस्ट) लि., सिटी टॉवर 2, 15 फ्लोर, शेख जहैद रोड, पीओ बाक्स 307, दुबई, यूएई	27/01/2004	46.	029046 श्री गोविन्दन उन्नी टा एफसीए ठाकरककल (पथ्यापुरा) वैक्लापुक्का (Vए) पालक्कड डिस्ट्रिक्ट, चेरुकोडे-679336	28/01/2004
7.	027792 श्री बाला कृष्णा र्ना एसीए डायरेक्टर - फाईनैस एन्ड एडमिनिस्ट्रेशन आई केयर हिमालय, पी ओ बाक्स 2389, काठमांडू, नेपाल	23/02/2004	47.	029753 श्री कारी गंगू नाएडू एफसीए प्लॉट नं. 44, फ्लैट नं. 402, साई ललिता निलायम, रोड नं. 2, वैस्ट मैडफैल्ड, सिक्ट्राबाद-500026	16/09/2003
8.	028087 श्री श्रीनिवास राववन जी एसीए फाईनैस मैनेजर, ऑलवेराएरी एन्ड पार्टनर्स डबल्यूएलएल, पी ओ बाक्स 3547, दोहा कतार	20/11/2003	48.	029776 श्री गिरीधर मामोदी एसीए संजीवनी स्लॉट नं. 148, नेताजी नगर, काप्रा, नियर सैनेकपुरी, हैदराबाद-500094	19/11/2003
9.	028302 श्री श्रीधर आर एसीए डायरेक्टर - फाईनैस मेसर्स पार्कव्यू कन्सल्टेन्सी सर्विसिज लि. पी ओ बाक्स 76529, नैरोबी, कीनिया	07/01/2004	49.	029961 श्री आनंद मूर्ति एसीए प्लॉट नं. 8, रंगा लेउगाउट -1, नल्लामपल्लायम, रण पति पोन्नो, कोरम्बोरे-641006	05/02/2004
10.	028357 मिस विजया लक्ष्मी के एफसीए फ्लैट नं. 303 थर्ड फ्लोर, 1-2-57 से 61 पाशम साथियाह अपार्टमेंट्स, नियर छेमलगुड मार्किट, छेमलगुड, हैदराबाद-500029	06/01/2004	50.	039185 श्री नरेन्द्रा सर्वोत्तम तेलिंग एसीए डी/101, आदर्श रेजिडेन्सी 47 ब्रास, 8 ब्लॉक, जयानगर, बंगलूर-560082	13/11/2003
11.	028374 श्री मुरली धरन के एस एसीए श्रीनिवास अपार्टमेंट्स, ग्रैंड फ्लोर, 19/37 सेनीटोफ 1 लेन, जी एस कालानी चैन्नाई-600018	30/03/2004	51.	041517 श्री अदिवोदी वेन्गडेल ज थाराम एसीए एए, गुनमोहर, ब्रिटानिया गार्डन्स, एयरपोर्ट रोड, बंगलूर-560017	22/12/2003
12.	028460 श्री चन्द्रा मौलीश्वरा शास्त्री जी वी एसीए ब्लॉक नं. 4, श्रीधर अनक्लेव, आनंद बाग मल्काजगिरी, हैदराबाद-500047	22/12/2003	52.	051144 श्री प्रकाश चन्द्रा शाह एसीए जनरल मैनेजर-फाईनैस एन्ड कम्पनी सेक्रेटरी, मंजूश्री प्लानटेशंस लि., नीलगिरिस डिस्ट्रिक्ट, न्यू होप पी ओ 643226	13/10/2003
13.	028695 श्री विद्याशंकर वी एसीए नं. 1, मानरकुड रोड, स्कार बोरिंग, टोरान्टो, ओन्टारिओ एमिप 4जी6, कनाडा	21/01/2004	53.	075864 श्री भाटिया गुरुमीत सिंह एसीए सिनीयर मैनेजर-फाईनैस शायल प्लानिंग एन्ड अनालिसिस, जैरोक्स मोदी कोर्पो लि., 20 फ्लोर, डोएलाएफ स्कोरयर, जाकरांडा मार्ग एम-ब्लॉक, डोएलाएफ फेज-II, गुडगांव-122002	06/11/2003
14.	028834 श्री सत्या सूर्या श्रीनिवास वी एफसीए 302 राजेश्वरी मैसन, 6-3-595/26/29 पद्मावती नगर, खैराताबाद, हैदराबाद-500004	30/09/2003			

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
54.	076125 श्री श्रीनिवास श्रीपद एसीए केयर ऑफ मि. पी के कृष्णन फ्लैट 204, ब्लॉक III, धिरंजीवी अपार्टमेंट्स वैस्ट मैडफेल्डी, सिकंदराबाद-500026	07/01/2004	64.	201234 मिस रोहिणी एस टी एसीए फ्लैट नं 8, रंगा लेआउट -1, नल्लामपलायम, गणपति पीओ कोएम्बलोर-641006	05/02/2004
55.	085434 श्री श्रीधर बालारमन एसीए बी-1/1650 वसंत कुंज, न्यू दिल्ली-110070	01/12/2003	65.	201371 श्री वसंत सुब्रमन्यम एन एसीए 16, अंबेर गार्डन, 04-04 अंबेर पार्क, सिंगापूर 434961	30/10/2003
56.	086949 श्री राजागोपालन एस एसीए ए/1102 वेलनसिया कोओप. हाऊसिंग सो. लि., हीरानन्दानी गार्डन्स, पोवाई, मुम्बई-400076	17/11/2003	66.	201617 मिस ज्योति आर एन एसीए 39/257, सी।, एस2 सैकंड फ्लोर, आदर्श अपार्टमेंट्स, मुल्तेसररी कनाल रोड, करीकामूरी, अर्नाकुलम-682011	29/03/2004
57.	087530 श्री साएरिआक मैथ्यू एफसीए बिजीनस सोल्यूशन्स कन्ट्रोलर मार्केटर-एमीरेट्स ग्रुप, पी ओ बाक्स 686 अल-फतन प्लाजा, 4 फ्लोर, दुबई, यूएई	08/03/2004	67.	201836 श्री दयानिधो एस एफसीए डो/6, राम्स मारुति, 23 राम कालोनी रोड, वैस्ट मेम्बलम, चैन्नई-600033	29/01/2004
58.	090804 मिस शिखा बोडन्ना जेटली एफसीए 40/004 हेरीटेज सिटी, एम जी रोड गुडगाँव-122002	09/10/2003	68.	202356 श्री जुल्फोकार अली के एसीए एक्जीक्यूटिव असिस्ट. टू डायरेक्टर फाइनेंस एमीरेट्स ट्रेडिंग एजेंसी, आसकन ग्रुप, पी ओ बाक्स 5239, दुबई, यूएई	15/12/2003
59.	200112 श्री रागुरमन पी एसीए ऑडिट मैनेजर, अर्नास्ट एन्ड यंग एलएलपी पी ओ बाक्स 251, 222 बे स्ट्रीट, टोरोंटो एम5के 1जे, कनाडा	28/01/2004	69.	202627 श्री मैथियास एस एसीए 42/1, 9 क्रॉस, 3 मेन रोड, चिन्नप्पा गार्डन वैन्सन टाऊन पोस्ट, बंगलोर-560046	17/11/2003
60.	200348 श्री कृष्णा श्रीनिवासन एसीए फाइनेंस कन्ट्रोलर, होटल गोल्लकोन्डा, 10-1-124, मैसूर टैंक, हैदराबाद-500028	29/09/2003	70.	203351 मिस निरामायी के एसीए सिनीयर मैनेजर - एकाउंट्स पल्लवी प्रोनाईट इन्डस्ट्रीज इंडिया प्रा. लि. 10 श्रीराम नगर, नॉर्थ स्ट्रीट, अलवरपेट, चैन्नई-600018	04/12/2003
61.	200602 श्री नरेन्द्रा शेनाए एम एसीए नं. 13 अगबाओक् स्ट्रीट, ऑफ ओपेबी, ईकोजा, लागोस, नाईजीरिया	23/02/2004	71.	203583 श्री मुरली कृष्णा तंत्री एसीए क्रेडिट अनालिस्ट, ट्रेजरी अबू धाबी इनवैस्टमेंट अथॉरिटी, पी ओ बाक्स 3600, अबू धाबी, यूएई	10/10/2003
62.	200777 श्री रमेश एस एसीए 22ए नैल्सन मणिक्रम रोड, छूनाईमेडू चैन्नई-600094	12/02/2004	72.	203695 श्री पवन कुमार देसाई एसीए 203, सिधी अपार्टमेंट्स, 7-1-28/बीसीडी पार्क एवेन्यू कालोनी, एस के रोड अमीरपेट, हैदराबाद-500016	23/01/2004
63.	201207 श्री राजासेगरन एम एसीए क्रेडिट ऑफिसर, ओमन अरब बैंक (साओक) पी बी नं 2010 रूबी 12, सुल्तनत ऑफ ओमन	27/02/2004	73.	203921 श्री गुरु प्रसाद उप्पालापति एसीए नं. 4 औरेंज रोड, न्यू लैंड्स, केप टाऊन साऊथ अफ्रीका	09/02/2004

क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.	क्र. सं.	एम.आर.एन. सदस्य का नाम व पता	स्थापित ता.
73.	204758 श्री राजेश रमईआह आर एसीए नं. 62, 17 मेन, 3 क्रॉस, 2 ब्लॉक कोरमंगला, बंगलौर-560034	12/01/2004	84.	208437 श्री विनू थॉमस एसीए फुल्लेलिकल हाउस, पूयाकुन्ही पी ओ पैमपेडी, कोट्टायम-686752	07/10/2003
74.	205470 श्री वृन्दा रवि कुमार एसीए स्मार्ट सोफ्टवेयर देव (प्रा.) लि. 515 नीलगिरीस ब्लॉक, आदित्य अन्नक्लेव अमीरपेट, हैदराबाद-500038	18/09/2003	85.	208470 श्री वेनु गणपतलचारी पी एसीए डी नं. 40/29-ए2 अपस्टेयरर्स मिडियम कम्पाउंड, पार्क रोड, कुरुमूल	16/09/2003
75.	205562 श्री पैयती श्रीनिवास सतीष एसीए एच नं 2-2-1130/8/1, फ्लैट # 103, शिवम रोड, न्यू नल्लाकुन्टा, हैदराबाद-500044	03/03/2004	86.	208762 श्री पांडु रंगा विठ्ठल ई एसीए जय साई निलायम, एच नं. 1-9-295/13/ए मस्जिद रोड स्ट्रीट नं. 7, विद्यानगर, हैदराबाद-500044	08/12/2003
76.	205855 श्री सतीष बाबू के एसीए 603/1, 6 फ्लोर, 1 ब्लॉक वाईट हाउस, हैदराबाद	13/02/2004	87.	208996 श्री लक्ष्मणन एल एसीए 88 राजेन्द्रन स्ट्रीट, थिरु नगर, चेन्नई-600087	28/01/2004
77.	206377 श्री नागेश्वरन डी एसीए प्लॉट 842, सिंडीकेट बैंक कालोनी, अन्ना नगर वेस्ट एक्स., चेन्नई-600101	26/02/2004	88.	209213 श्री शिवाकुमार जी एसीए इंटरनल ऑडिटर, एमिरेट्स कम्प्यूटर्स, पी ओ बाक्स 60983, दुबई, यू.ए.ई.	22/03/2004
78.	206782 श्री प्रशान्त कुमार एच आर एसीए नं. 19, 11 क्रॉस, लक्ष्मआह ब्लॉक, एच ए फार्म पोस्ट, गंगा नगर, बंगलौर-560024	30/12/2003	89.	209365 श्री प्रतिभान पी एसीए फ़ार्मेशनल कन्ट्रोलर, एमएफआई ऑफिस सोल्यूशन्स (यू) लि. इग्नैशन, जिंजा रोड, पी ओ बाक्स 21444, कम्पला, यूगांडा	18/03/2004
79.	207022 श्री दिवाकर एस एसीए फाईनैस मैनेजर, आरएनए रिसोर्सिज ग्रुप लि. पी ओ बाक्स 17155, दुबई, यू.ए.ई.	09/12/2003	90.	209656 श्री मक्याला मोहन चैरी एसीए एच नं. 4-5-701, कुल्चीगुडा, हैदराबाद-500027	21/11/2003
80.	207638 श्री श्रीजीत आर एसीए अड्यूसैरिल हाउस, मल्लाफुहसेरी, अरनमुला पी ओ 689533	21/11/2003	91.	210081 श्री पंकज कुमार जैन बी एसीए ओल्ड नं. 420 मिन्ट स्ट्रीट, ग्रैंड फ्लोर, साउथकारपेट, चेन्नई-600079	29/09/2003
81.	207771 मिस पद्मजा चौधरी पी एसीए प्लॉट नं. 101, सागर सोसाएटी, रोड नं. 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034	01/12/2003	92.	210137 श्री विकास सुरेका एसीए नं. 228 फर्स्ट फ्लोर, 2 ए मेन 6 क्रॉस, हल 3 स्टेज, न्यू थिप्पासंद्रा मेन रोड, बंगलौर-560075	22/01/2004
82.	208332 मिस तृप्ति देव एसीए # 95/96, 1 क्रॉस, सह्याद्री एक्सप्रेसवे, पांडुरंग नगर, बैन्नरघाट रोड, बंगलौर-560075	26/12/2003	93.	211618 श्री सुरेश कुमार कामीरोशेडी एसीए एच नं. 16-2-147/62, आनंद नगर, मलाकपेट, हैदराबाद-500036	26/10/2003

अशोक हल्दिया
सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 21st March 2005

No. S-35017/02/04-SS-II—SO—Whereas M/s. Kamal Bus Service Ltd., (herein after referred to as the establishment) had been granted exemption under section 17(1)(a) of the then Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (herein after referred to as the Act) vide notification No. F-14/25/62-Lab dated 28.6.1962 with effect from 06.09.1964.

AND WHEREAS

- i. The establishment has failed to declare interest at par with the statutory rate of interest as per para 60 of the EPF Scheme, 1952.
- ii. The establishment has desired to dis-continue the exemption granted to them under the Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under Section 17(4) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 the Central Government hereby cancels the exemption granted to the said establishment with effect from 31.3.2002.

SANJUKTA RAY
Under Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 23rd March 2005

No. N-15/13/1/2/2002-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely

"Areas falling within the limits of Revenue Villages of Tandur, Gouthapour, Gopanpally, Belkatoor, Chengole, Chengespur, Yelmakanna, Kanapur, Antharam (including Antharam Thanda and Dastagiripet), Khanjapour and Saipur of Tandur Mandal in Ranga Reddy District."

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

The 28th March 2005

No. N-15/13/6/7/2004-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2005 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Kerala Employees' State

Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Kerala namely

"Revenue village of Puthukulam in Kollam Taluk of Kollam District."

R.C. SHARMA
Jt. Dir. (P&D)

Mumbai-13, the 24th March 2005

No. 31-V-34-11/L.Cs./Co-Ordn.—In partial modification of this office Notification of even No. dated 16.09.2004, the following amendment is made in the list of members of the Local Committee for Chikalthana area, formed under Regulation 10-A-1 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950.

UNDER REGULATION 10-A-1(c)

READ—Administrative Medical Officer, Nagpur

INSTEAD OF—Administrative Medical Officer, Pune.

By Order,

A.K. SINHA
Additional Commissioner

No. 31-V-34-11/L.Cs./Co-Ordn.—In partial modification of this office Notification of even No. dated 16.09.2004, the following amendment is made in the list of members of the Local Committee for Nanded area, formed under Regulation 10-A-1 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950.

UNDER REGULATION 10-A-1(c)

READ—Administrative Medical Officer, Nagpur

INSTEAD OF—Administrative Medical Officer, Pune.

By Order,

A.K. SINHA
Additional Commissioner

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

New Delhi-110 066, the 23rd March 2005

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Commissioners Recruitment Rules, 1966 notified vide Gazette Notification dated 20th August 1966 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Central Provident Fund Commissioner (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 5900-200-6700/- may be substituted with the pay scale Rs. 18400-500-22400/-.
- (ii) Under column 10 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
- (iii) In the heading of column 10 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iv) In the heading of column no. 11 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Financial Advisor & Chief Accounts Officer) Recruitment Rules, 1990 notified vide Gazette Notification dated 21st April 1990 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Financial Advisor & Chief Accounts Officer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 4500-150-5700/- may be substituted with the pay scale Rs. 14300-400-18300/-.
- (ii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
- (iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iv) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Additional Central Provident Fund Commissioner) Recruitment Rules, 1999 notified vide Gazette Notification dated 30th August 1999 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 5 of the Schedule the word "Selection" may be substituted with the word "Selection-cum-Seniority".
- (ii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
- (iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iv) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation [Additional Central Provident Fund Commissioner (Information Services)] Recruitment Rules, 2001 notified vide Gazette Notification dated 9th June 2001 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Additional Central Provident Fund Commissioner (Information Services) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with 'absorption'.

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Superintending Engineer) Recruitment Rules, 1991 notified vide Gazette Notification dated 21st December 1991 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Chief Engineer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 1 of the Schedule the designation "Superintending Engineer" may be substituted with the designation "Chief Engineer".
- (ii) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment rules notified with the pay scale of Rs. 3700-125-4700-150-5000/- may be substituted with the pay scale Rs. 14300-400-18300/-.
- (iii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
- (iv) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (v) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Director (Vigilance) Recruitment Rules, 1985 notified vide Gazette Notification dated 15th June 1985 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Director (Vigilance) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 3700-125-4700-150-5000/- may be substituted with the pay scale Rs. 12000-375-16500/-.

- (ii) Under column 10 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

- (iii) In the heading of column 10 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (iv) In the heading of column no. 11 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001 notified vide Gazette Notification dated 9th June 2001 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Director (Information Services) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Vigilance) Recruitment Rules, 1984 notified vide Gazette Notification dated 17th November 1984 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Vigilance) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 3000-100-3500-125-4500/- may be substituted with the pay scale Rs. 10000-325-15200/-.
- (ii) Under column 10 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(iii) In the heading of column 10 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iv) In the heading of column no. 11 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001 notified vide Gazette Notification dated 9th June 2001 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Information Services) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Executive Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2004 notified vide Gazette Notification dated 1st May 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Executive Engineer (Civil) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Executive Engineer (Electrical) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 1st May 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Executive Engineer (Electrical) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation [Deputy Director (Official Language)] Recruitment Rules, 1999 notified vide Gazette Notification dated 30th October 1999 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Deputy Director (Official Language) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 5 of the Schedule the word "Selection" may be substituted with the word "Selection-cum-seniority".

(ii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iv) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation [Deputy Director (Official Language)] Recruitment Rules, 1999 notified vide Gazette Notification dated 30th October 1999 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Assistant Provident Fund Commissioner) Recruitment Rules, 1999 notified vide Gazette Notification dated 30th August 1999 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Provident Fund Commissioner (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 5 of the Schedule the word "Selection" may be substituted with the word "Selection-cum-Seniority".

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Vigilance) Recruitment Rules, 1999 notified vide Gazette Notification dated 30th October 1999 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Vigilance) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words "transfer on deputation" may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Information Services) Recruitment Rules, 2001 notified vide Gazette Notification dated 9th June 2001 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Information Services) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Engineer (Civil) Recruitment Rules, 2004 notified vide Gazette Notification dated 1st May 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Engineer (Civil) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Engineer (Electrical) Recruitment Rules, 2004 notified vide Gazette Notification dated 1st May 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Engineer (Electrical) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Zonal Audit Officer) Recruitment Rules, 2002 notified vide Gazette Notification dated 1st June 2002 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Zonal Audit Officer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column no. 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Official Language) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 17th January 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Director (Official Language) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2002 notified vide Gazette Notification dated 1st June 2002 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Audit Officer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the word 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Stenographer Service) Recruitment Rules, 1998 notified vide Gazette Notification dated 2nd January 1999 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Stenographers Service (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 5 of the Schedule the word "Selection" may be substituted with the word "Selection-cum-Seniority".

- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (iii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Section Officer) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 27th September 2003 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Section Officer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Junior Analyst) Recruitment Rules, 1983 notified vide Gazette Notification dated 10th February 1984 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Junior Analyst (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- may be substituted with the pay scale Rs. 6500-200-10500/-.

- (ii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

- (iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (iv) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Welfare Officer) Recruitment Rules, 1991 notified vide Gazette Notification dated 3rd January 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Welfare Officer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 2000-60-2300-EB-75-3200-100-3500/- may be substituted with the pay scale Rs. 6500-200-10500/-.

- (ii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

- (iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (iv) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Programmer) Recruitment Rules, 2001 notified vide Gazette

These rules dated 9th June 2001 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Programmer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 5 of the Schedule the word "Selection" may be substituted with the word "Selection-cum-Seniority".

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Programmer) Recruitment Rules, 2001 notified vide Gazette Notification dated 9th June 2001 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant Programmer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 5 of the Schedule the word "Selection" may be substituted with the word "Selection-cum-Seniority".

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund &

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Senior Hindi Translator) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 17th January 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Senior Hindi Translator (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Auditor) Recruitment Rules, 2002 notified vide Gazette Notification dated 1st June 2002 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Auditor (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Vigilance Assistant) Recruitment Rules, 1986 notified vide

Gazette Notification dated 15th March, 1986 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Vigilance Assistant (amendment) Recruitment Rules, 2005.
- (i) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Research Assistant) Recruitment Rules, 1983 notified vide Gazette Notification dated 10th February 1984 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Research Assistant (amendment) Recruitment Rules, 2005.
- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/- may be substituted with the pay scale Rs. 5500-175-9000/-.
- (ii) Under column 10 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
- (iii) In the heading of column 10 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iv) In the heading of column No. 11 the word "transfer" may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Assistant (Headquarters) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 27th September 2003 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Assistant (Headquarters) (amendment) Recruitment Rules, 2005.
- (i) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (ii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—in exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Library Information Assistant) Recruitment Rules, 1991 notified vide Gazette Notification dated 6th June 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Library Information Assistant (amendment) Recruitment Rules, 2005.
- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600/- may be substituted with the pay scale Rs. 5500-175-9000/-.
- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Enforcement Officer/Assistant Accounts Officer) Recruitment Rules, 2002 notified vide Gazette Notification dated 1st June 2002 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Enforcement Officer/Assistant Accounts Officer (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(ii) In the heading of column No. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Hindi Translator Gr.II) Recruitment Rules, 1983 notified vide Gazette Notification dated 9th June 1983 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Junior Hindi Translator (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under Column 1 of the Schedule the designation "Hindi Translator Gr.II" may be substituted with the designation "Junior Hindi Translator".

(ii) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300/- may be substituted with the pay scale Rs. 5000-150-8000/-.

(iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iv) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Section Supervisor (Head Clerk) (Regional Office) Recruitment Rules, 1992 notified vide Gazette Notification dated 28th July 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Section Supervisor (Head Clerk) (Regional Office) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300/- may be substituted with the pay scale Rs. 5000-150-8000/-.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Legal Assistant) Recruitment Rules, 1990 notified vide Gazette Notification dated 24th February 1990 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Legal Assistant (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300/- may be substituted with the pay scale Rs. 5000-150-8000/-.

- (ii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
- (iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iv) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Statistical Assistant) Recruitment Rules, 1988 notified vide Gazette Notification dated 2nd April 1988 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Statistical Assistant (amendment) Recruitment Rules, 2005.
 - (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 1400-40-1800-EB-50-2300/- may be substituted with the pay scale Rs. 5000-150-8000/-.
 - (ii) Under column 11 of the Schedule the words 'transfer on deputation' may be substituted with the word 'Deputation'.
 - (iii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
 - (iv) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Data Entry Operator Grade A) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 8th November

2003 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Data Entry Operator Grade A (amendment) Recruitment Rules, 2005.
 - (i) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
 - (ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Data Entry Operator Grade B) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 8th November 2003 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Data Entry Operator Grade B (amendment) Recruitment Rules, 2005.
 - (i) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
 - (ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Data Entry Operator Grade C) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 8th November 2003 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Data Entry Operator Grade C (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Staff Car Drivers (Ordinary Grade, Grade II, Grade I & Special Grade) Recruitment Rules, 2003 notified vide Gazette Notification dated 17th January 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Staff Car Drivers (Ordinary Grade, Grade II, Grade I & Special Grade) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (ii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Senior Gestetner Operator (Headquarters & Regional Offices) Recruitment Rules, 1992 notified vide Gazette Notification dated 31st July 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

5—29 GI/2005

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Senior Gestetner Operator (Headquarters & Regional Offices) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 950-20-1150-EB-25-1400/- may be substituted with the pay scale Rs. 3050-75-3950-80-4590/-.
- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Electrician (Wireman) Recruitment Rules, 1986 notified vide Gazette Notification dated 22nd February 1986 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Electrician (Wireman) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 950-20-1150-EB-25-1400/- may be substituted with the pay scale Rs. 3050-75-3950-80-4590/-.
- (ii) In the heading of column 10 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iii) In the heading of column no. 11 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Lift Operator) Recruitment Rules, 1986 notified vide

Gazette Notification dated 29th November 1986 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Lift Operator (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 950-20-1150-EB-25-1500/- may be substituted with the pay scale Rs. 3050-75-3950-80-4590/-.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Plumber & Pump Operator) Recruitment Rules, 1986 notified vide Gazette Notification dated 26th July 1986 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Plumber & Pump Operator (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 950-20-1150-EB-25-1400/- may be substituted with the pay scale Rs. 3050-75-3950-80-4590/-.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of

Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Cook-cum-Guest House Attendant) Recruitment Rules, 1986 notified vide Gazette Notification dated 25th October 1986 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Cook-cum-Guest House Attendant (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 750-12-870-EB-14-940/- may be substituted with the pay scale Rs. 3050-75-3950-80-4590/-.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Binder) Recruitment Rules, 1986 notified vide Gazette Notification dated 31st January 1987 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :-

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Binder (amendment) Recruitment Rules, 2005.

(i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 825-15-900-EB-20-1200/- may be substituted with the pay scale Rs. 2750-70-3800-75-4400/-.

(ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

(iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Junior Gestetner Operator (Headquarters & Regional Offices) Recruitment Rules, 1992 notified vide Gazette Notification dated 13th July 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Junior Gestetner Operator (Headquarters & Regional Offices) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 800-15-1010-EB-20-1150/- may be substituted with the pay scale Rs. 2650-65-3300-70-4000/-.
- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation Record Sorter (Senior) (Headquarters & Regional Offices) Recruitment Rules, 1992 notified vide Gazette Notification dated 31st July 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Record Sorter (Senior)(Headquarters & Regional Offices) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 800-15-1010-EB-20-1150/- may be substituted with the pay scale Rs. 2650-65-3300-70-4000/-.
- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Jamedar/Daftry/Record Sorter (Junior)) Recruitment Rules, 1992 notified vide Gazette Notification dated 31st July 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Jamedar/Daftry/Record Sorter (Junior) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 775-12-871-EB-14-1025/- may be substituted with the pay scale Rs. 2610-60-3150-65-3540/-.
- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".

- (iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Multi Task Attendant) Recruitment Rules, 2004 notified vide Gazette Notification dated 13th March 2004 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Multi Task Attendant (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI

Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

No. HRD/1(1)2004/Review/Recruitment Rules—In exercise of the powers conferred by sub-sections 7(a) of Section 5D of the Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) following amendments to the Employees' Provident Fund Organisation (Chowkidar, Helper, Mali, Farash, Water Carrier & Sweeper (Safaiwala)) Recruitment Rules, 1992 notified vide Gazette Notification dated 31st July 1992 are made in the light of the orders dated 4th August 2003 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Personnel & Training :—

1. These rules may be called the Employees' Provident Fund Organisation Helper, Sweeper (Safaiwala) (amendment) Recruitment Rules, 2005.

- (i) Under column 4 of the Schedule attached to the Recruitment Rules notified the pay scale Rs. 750-12-870-EB-14-940/- may be substituted with the pay scale Rs. 2550-55-2660-60-3200/-.
- (ii) In the heading of column 11 in schedule the words "percentage of vacancies to be filled by various methods" may be substituted with the words as "percentage of posts to be filled by various methods".
- (iii) In the heading of column no. 12 the word transfer may be substituted with "absorption".

ANIRUDH RAI
Central P.F. Commissioner & Secy.
Central Board of Trustees, EPF

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Chennai-600 034, the 17th March 2005

(Chartered Accountants)

3SCA(5)/3/2003-2004: With reference to this Institute's Notification Nos. 4CA(1)/27/1976-77 dated 5th March 1977, 4SCA(1)/12/1978-79 dated 24th March 1979, 4SCA(1)/4/1982-83 dated 31st March 1983, 3SCA(4)/10/1983-84 dated 31st March 1984, 3SCA(4)/8/1990-91 dated 1st December 1990, 3SCA(4)/9/1991-92 dated 1st January 1992, 3SCA(4)/3/1993-94 dated 1st January 1994, 3SCA(4)/4/1994-95 dated 22nd February 1995, 3SCA(4)/2/1995-96 dated 27th February 1996, 3SCA(4)/4/1995-96 dated 12th March 1996, 3SCA(4)/3/1996-97 dated 11th December 1996, 3SCA(4)/5/1996-97 dated 7th April 1997, 3SCA(4)/3/1997-98 dated 31st March 1998, 3SCA(4)/4/1998-99 dated 7th May 1999, 3SCA(4)/4/1999-2000 dated 17th April 2000, 3SCA(4)/5/2000-2001 dated 12th December 2001, 3WCA(4)/1/2000-2001 dated 15th January 2001 3SCA(4)/5/2001-2002 dated 21st May 2002, 3SCA(4)/1/2002-2003 dated 15th January 2003 3SCA(4)/4/2002-2003 dated 30th April 2003. 25CA(24)/1995-96 dated 7th July 2003 it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
1	005414	MR. YASH BIR JAGGI ACA 16/14 2ND FLOOR W E A KAROL BAGH NEW DELHI 110005	15/09/2003
2	006618	Mr. SIVASUBRAMANIAM KRISHNAN FCA B1, 2ND FLOOR ROSY MAATILDA APTS 27 GOPALAPURAM FIRST STREET CHENNAI 600086	21/01/2004
3	012385	Mr. PADMANABHAN V ACA SF 588/1-B AMMAPALAYAM ANUPPUPALAYAM PO TIRUPUR 641652	07/10/2003
4	012696	Mr. AYYASWAMY G FCA NO 90 AROKIASAMY ROAD (E) R S PURAM COIMBATORE 641002	08/03/2004
5	013810	Mr. SWAMINATHAN APPAYYA ACA 14 SYLVESTER AVENUE HILLSBOROUGH AUCKLAND NEW ZEALAND	16/02/2004
6	016015	Mr. VAIDYANATHAN S ACA 4/16, FIRST CROSS STREET KARPAGAM GARDEN ADYAR CHENNAI 600020	19/02/2004
7	018263	Mr. WILLIAM JOHN ACA YOGESH PARK PLOT NO 145, FLAT NO 9 LULLANAGAR PUNE 411040	28/11/2003
8	018642	Mr. SUBBARAJ A ACA 477, P.J.N. ROAD VILLUPURAM 605602	06/11/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
9	018691	MR. SRIRAMAN J ACA M/S RAMAN ASSOCIATES 1ST FLOOR, R E APARTMENTS 70 ARYA GOUDA ROAD WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	29/01/2004
10	018901	Mr. MURUGAVEL S S ACA VIDHYA APARTMENTS - II 22 BAZAAR STREET NESAPAKKAM KK NAGAR WEST CHENNAI 600078	24/09/2003
11	018991	Mr. RAMANATHAN T G FCA 'KALYAN LAKSHMI', II FLOOR 6, FIRST MAIN ROAD KASTURBHA NAGAR ADYAR CHENNAI 600020	29/10/2003
12	019167	Mr. RADHAKRISHNAN V FCA VENKITA NIVASA KAVERY COMPOUND UDUPI DISTRICT SOUTH KANARA PANIYUR POST 574140	03/11/2003
13	019506	Mr. AGARWAL R RAJENDER FCA 24 PARIS AVENUE EDISON N J 08820 U S A	27/02/2004
14	020262	MR. HALIM A K ACA AUDITOR AL SALEEDI P O BOX 31300 SHARJAH U A E	11/03/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
15	020793	Mr. RAJA RATHINA SAI G ACA CHIEF OFFICER ANDHRA BANK - HEAD OFFICE RECOVERY MGT.DIVISION (3RD FLOOR) DR. PATTABHI BHAVAN,5-9-11 SAIFABAD HYDERABAD 500004	10/12/2003	25	023878	Mr. VARADHAN M S ACA NO 10/6, FIRST FLOOR IYAPPAN STREET WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	16/01/2004
16	021086	Mr. CHARI T V T ACA 9 TANJONG RHU ROAD # 15-04 THE WATERSIDE SINGAPORE 436894	28/10/2003	26	024767	Mr. KRISHNAN S FCA PLOT NO 3009 G-3, OM SAI APARTMENTS V MAIN ROAD MADIPAKKAM CHENNAI 600091	16/03/2004
17	021410	Mr. NAGARAJAN R ACA M/S ESSEN BUILDERS PLOT 1500, 16TH MAIN ROAD ANNA NAGAR WEST CHENNAI 600040	18/12/2003	27	025060	Mr. SRIRAM R ACA FLAT I, 2ND FLOOR SRIVATSA SREE APARTMENTS 13, 4TH MAIN ROAD R A PURAM CHENNAI 600028	09/02/2004
18	021653	Mr. SAMPATHKUMAR S FCA FLAT A, 7E REGAL PALM GARDENS 383 TAMBARAM VELACHERY ROAD VELACHERY CHENNAI 600042	04/12/2003	28	025493	Mr. SESA CHARY M V N FCA 82 SBI OFFICERS COLONY MOOSARAM BAGH HYDERABAD 500036	03/11/2003
19	021672	Mr. BABU U V M ACA 100 WESTGATE DRIVE EDISON H J 08820 U S A	28/10/2003	29	025812	Mr. RAMA KRISHNA KUMAR C ACA 123/107 II FLOOR 27TH CROSS, 2ND MAIN 7TH BLOCK JAYANAGAR BANGALORE 560082	02/01/2004
20	022566	Mr. SATYANARAYANA G FCA H NO 3-6-578/I STREET NO 2 HIMAYATNAGAR HYDERABAD 500029	23/01/2004	30	026189	Mr. MEENAKSHISUNDARAM S ACA 1-280, HILLCREST AVENUE MISSISSAUGA L5B 4L3 CANADA	15/03/2004
21	023157	Ms. LAKSHMI VIDYASAGAR ACA 11606 KARLWOOD LANE HOUSTON T X 77099 U S A	17/10/2003	31	026587	Mr. RAVI KUMAR G ACA 1-11-252/12, H NO 153 PLOT NO 10 M N NAGAR BEGUMPET SECUNDERABAD 500016	19/02/2004
22	023614	Mr. NAGRAJ G FCA 2 PLAZA RESIDENCY MALANI COLONY CHINNA THOKATTA NEW BOWENPALLY PO (MVN) SECUNDERABAD 500009	18/09/2003	32	026697	Mr. MEKA NARENDRA PRASAD ACA 5520, SPRING HOUSE DRIVE APT NO 16 PLEASANTON CALIFORNIA 94588 U S A	17/12/2003
23	023630	Mr. PRASADA RAO V K FCA 8-3-167/0/7/2, LAKSHMI NAGAR C/O DK.LAKSHMI OPP. CANARA BANK KALYAN NAGAR BRANCH HYDERABAD 500038	01/01/2004	33	026768	Mr. VIJAYAKUMAR R V FCA SATYANARAYANA PET P O LIMITS BELLARY 583201	17/09/2003
24	023725	Mr. THIRUMALA SATYANARAYANA P ACA FLAT NO 202, PRAGATHI CHAMBERS 3-6-66 SKYLINE CINEMA ROAD BASHEERBAGH HYDERABAD 500029	27/01/2004	34	026814	Ms. REMA HEBBAR ACA 436, 9TH CROSS 4TH MAIN, HIG COLONY RMV SECOND STAGE BANGALORE 560094	05/01/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
35	027111	Mr. MURALI KRISHNAN M S ACA 38, ROHINI APARTMENTS 7-1-32/A, LEELA NAGAR AMEERPET HYDERABAD 500016	26/12/2003
36	027673	Mr. HARISH PRABHU B FCA HEAD OF TREASURY & CREDIT SERVICES SHELL MARKETS (MIDDLE EAST) LTD CITY TOWER 2, 15TH FLOOR SHEIKH ZAYED ROAD, PO BOX 307 DUBAI U A E	27/01/2004
37	027792	Mr. BAL KRISHNA SHARMA ACA DIRECTOR - FINNCE & ADMINISTRATION EYE CARE HIMALAYA P O BOX 2389 KATHMANDU NEPAL	23/02/2004
38	028087	Mr. SRINIVASA RAGHAVAN G ACA FINANCE MANAGER ALGHORAIRI & PARTNERS WLL P O BOX 3547 DOHA QATAR	20/11/2003
39	028302	Mr. SRIDHAR R ACA DIRECTOR - FINANCE M/S PARKVIEW CONSULTANCY • SERVICES LTD. P O BOX 76529 NAIROBI KENYA	07/01/2004
40	028357	Ms. VIJAYA LAKSHMI K FCA FLAT NO 303 THIRD FLOOR 1-2-57 TO 61 FASHAM SATHAIAH APARTMENTS NEAR DOMALGUDA MARKET DOMALGUDA HYDERABAD 500029	06/01/2004
41	028374	Mr. MURALI DHARAN K S ACA SHRINIVAS APARTMENTS GROUND FLOOR 19/37 CENETOPH I LANE G S COLONY CHENNAI 600018	30/03/2004
42	028460	Mr. CHANDRA MOULEESWARA SASTRY G V ACA BLOCK NO 4, SREEDHARA ENCLAVE ANAND BAGH MALKAJGIRI HYDERABAD 500047	22/12/2003
43	028695	Mr. VIDYASHANKAR V ACA NO 1, MANORWOOD ROAD SCAR BOROUGH TORONTO ONTARIO MIP 4G6 CANADA	21/01/2004

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
44	028834	Mr. SATYA SURYA SRINIVAS V FCA 302 RAJESWARI MANSION 6-3-595/26/29 PADMAVATHI NAGAR KHAIRATABAD HYDERABAD 500004	30/09/2003
45	029025	Mr. MURALI S ACA MANAGER - INTERNAL AUDIT AL MANSOORI SPECIALISED ENGG. P O BOX 3374, ABU DHABI U A E	28/11/2003
46	029046	Mr. GOVINDAN UNNI T FCA THARAKKAL (PATHAYAPPURA) VALLAPPUZHA (VIA) PALAKKAD DISTRICT CHERUKODE 679336	28/01/2004
47	029753	Mr. KARRI GANGU NAIDU FCA PLOT NO 44, FLAT NO 402 SAJ LALITHA NILAYAM ROAD NO 2, WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD 500026	16/09/2003
48	029776	Mr. GIRIDHAR MAMIDI ACA 'SANJEEVANI' PLOT NO 148, NE'AJI NAGAR KAPRA, NEAR SA NIKPURI HYDERABAD 500094	19/11/2003
49	029961	Mr. ANAND MURTIY ACA PLOT NO 8, RANGA LAYOUT - I NALLAMPALAYAM GANAPATHY PO COIMBATORE 641006	05/02/2004
50	039185	Mr. NARENDRA SARVOTTAM TELANG ACA D/101, ADARSH RESIDENCY 47TH CROSS, 8TH BLOCK JAYANAGAR BANGALORE 560082	13/11/2003
51	041517	Mr. ADIYODI VENGAYIL JAYARAM ACA 2A, GULMOHOR BRITANNIA GARDENS AIRPORT ROAD BANGALORE 560017	22/12/2003
52	051144	Mr. PRAKASH CHANDRA SHAH ACA GENERAL MANAGER - FINANCE & COMPANY SECRETARY MANJUSHREE PLANTATIONS LTD NILGIRIS DISTRICT NEW HOPE PO 643226	13/10/2003
53	075864	Mr. BHATIA GURMEET SINGH ACA SR MANAGER- FINANCIAL PLANNING & ANALYSIS XEROX MODICORP LIMITED 20TH FLOOR, DLF SQUARE, JACARANDA MARG, M-BLOCK, DLF PHASE II, GURGAON 122002	06/11/2003

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
54	076125	Mr. SRINIVAS SREEPADA ACA C/O MR.P K KRISHNAN FLAT 204, BLOCK III CHIRANJIVI APARTMENTS WEST MARREDPALLY SECUNDERABAD 500026	07/01/2004	65	201371	Mr. VASANTH SUBRAMANIAN N ACA 16 AMBER GARDEN 04-04 AMBER PARK SINGAPORE 434961	30/10/2003
55	085434	Mr. SRIDHAR BALARAMAN ACA B-1/1650 VASANT KUNJ NEW DELHI 110070	01/12/2003	66	201617	Ms. JYOTHI R N ACA 39/257, CI, S2 SECOND FLOOR ADARSH APARTMENTS MULLASSERY CANAL ROAD KARIKKAMURI ERNAKULAM 682011	29/03/2004
56	086949	Mr. RAJAGOPALAN S ACA A/1102 VALENCIA COOP.HSG.SOC LTD HIRANANDANI GARDENS POWAI MUMBAI 400076	17/11/2003	67	201836	Mr. DAYANIDHI S FCA D/6, RAMS MARUTI 23 RAM COLONY ROAD WEST MAMBALAM CHENNAI 600033	29/01/2004
57	087530	Mr. CYRIAC MATHEW FCA BUSINESS SOLUTIONS CONTROLLER MERCATUR - EMIRATES GROUP P O BOX 686 AL-FATTAN PLAZA, 4TH FLOOR DUBAI U A E	08/03/2004	68	202356	Mr. ZULFIQUAR ALI K ACA EXECUTIVE ASST.TO DIRECTOR FINANCE EMIRATES TARADING AGENCY ASCON GROUP P O BOX 5239 DUBAI, U A E	15/12/2003
58	090804	Ms. SHIKHA BOUNTRA JETLEY FCA 40/004 HERITAGE CITY M G ROAD GURGAON 122002	09/10/2003	69	202627	Mr. MATHIAS S ACA 42/1, 9TH CROSS 3RD MAIN ROAD CHINNAPPA GARDEN BENSON TOWN POST BANGALORE 560046	17/11/2003
59	200112	Mr. RAGURAMAN P ACA AUDIT MANAGER ERNST & YOUNG LLP P O BOX 251 222 BAY STREET TORONTO M5K 1J7 CANADA	28/01/2004	70	203351	Ms. NIRAIMATHI K ACA SR MANAGER - ACCOUNTS PALLAVA GRANITE INDUSTRIES INDIA PVT LTD 10 SRIRAM NAGAR, NORTH STREET ALWARPET CHENNAI 600018	04/12/2003
60	200348	Mr. KRISHNA SRINIVASAN ACA FINANCE CONTROLLER HOTEL GOLKONDA 10-1-124, MASAB TANK HYDERABAD 500028	29/09/2003	71	203583	Mr. MURALI KRISHNA TANTRY ACA CREDIT ANALYST, TREASURY ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY P O BOX 3600 ABU DHABI U A E	10/10/2003
61	200602	Mr. NARENDRA SHENOY M ACA NO 13 AGBAOKU STREET OFF OPEBI IKEJA, LAGOS NIGERIA	23/02/2004	72	203695	Mr. PAVAN KUMAR DESAI ACA 203, SIDHI APARTMENTS 7-1-28/BCD, PARK AVENUE COLONY S K ROAD AMEERPET HYDERABAD 500016	23/01/2004
62	200777	Mr. RAMESH S ACA 22A NELSON MANICKAM ROAD CHOOOLAIMEDU CHENNAI 600094	12/02/2004	73	203921	Mr. GURU PRASAD UPPALAPATI ACA NO 4 ORANGE ROAD NEWLANDS, CAPE TOWN SOUTH AFRICA	09/02/2004
63	201207	Mr. RAJASEGARAN M ACA CREDIT OFFICER OMAN ARAB BANK (SAOC) P B NO 2010 RUWI 112 SULTANATE OF OMAN	27/02/2004	74	204758	Mr. RAJESH RAMAIAH R ACA NO 62, 17TH MAIN, 3RD CROSS 2ND BLOCK KORAMANGALA BANGALORE 560034	12/01/2004
64	201234	Ms. ROHINI S T ACA PLOT NO 8, RANGA LAYOUT - I NALLAMPALAYAM GANAPATHY PO COIMBATORE 641006	05/02/2004				

S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Restore Dt.
75	205470	Mr. VOONA RAVI KUMAR ACA SMART SOFTWARE DEV (P) LTD 515 NILGIRIS BLOCK ADITYA ENCLAVE AMEERPET HYDERABAD 500038	18/09/2003	85	208470	Mr. VENU GOPALACHARI P ACA D NO 40/29-A2 UPSTAIRS MEDUM COMPOUND PARK ROAD KURNOOL	16/09/2003
76	205562	Mr. PEYYETI SRINIVAS SATISH ACA H NO 2-2-1130/8/1 FLAT # 103 SHIVAM ROAD NEW NALLAKUNTA HYDERABAD 500044	03/03/2004	86	208762	Mr. PANDU RANGA VITTAL E ACA JAYA SAI NILAYAM H NO.1-9-295/13/A MASJID ROAD STREET NO.7 VIDYANAGAR HYDERABAD 500044	08/12/2003
77	205855	Mr. SATISH BABU K ACA 603/1, 6TH FLOOR, 1ST BLOCK WHITE HOUSE HYDERABAD	13/02/2004	87	208996	Mr. LAKSHMANAN L ACA 88 RAJENDRAN STREET THIRU NAGAR CHENNAI 600087	28/01/2004
78	206377	Mr. NAGESHWARAN D ACA PLOT 342, SYNDICATE BANK COLONY ANNA NAGAR WEST EXTN. CHENNAI 600101	26/02/2004	88	209213	Mr. SIVAKUMAR G ACA INTERNAL AUDITOR EMIRATES COMPUTERS P O BOX 60983 DUBAI, U A E	22/03/2004
79	206782	Mr. PRASHANTH KUMAR H R ACA NO 19, 11TH CROSS LAKSHMAIAH BLOCK H A FARM POST GANGANAGAR BANGALORE 560024	30/12/2003	89	209365	Mr. PARTHIBAN P ACA FINANCIAL CONTROLLER MFI OFFICE SOLUTIONS (U) LTD EAGEN MANSION JINJA ROAD P O BOX 21444 KAMPALA, UGANDA	18/03/2004
80	207022	Mr. DIWAKAR S ACA FINANCE MANAGER RNA RESOURCES GROUP LTD P O BOX 17155 DUABI, U A E	09/12/2003	90	209656	Mr. MAKTHALA MOHANA CHARY ACA H NO 4-5-701 KUTBIGUDA HYDERABAD 500027	21/11/2003
81	207638	Mr. SREEJITH R ACA AYYASSERIL HOUSE MALLAPUZHASSERY ARANMULA P O 689533	21/11/2003	91	210081	Mr. PANKAJ KUMAR JAIN B ACA OLD NO 420 MINT STREET GROUND FLOOR SOWCARPET CHENNAI 600079	29/09/2003
82	207771	Ms. PADMAJA CHOWDARY P ACA PLOT NO 101, SAGAR SOCIETY ROAD NO 2 BANJARA HILLS HYDERABAD 500034	01/12/2003	92	210137	Mr. VIKASH SUREKA ACA NO 228 FIRST FLOOR 2ND 'A' MAIN 6TH CROSS HAL 3RD STAGE NEW THIPPASANDRA MAIN ROAD BANGALORE 560075	22/01/2004
83	208332	Ms. TRUPTI DEV ACA # 95/96, I CROSS SAHYADRI EXTENSION PANDURANGA NAGAR BANNERGHATTA ROAD BANGALORE 560076	26/12/2003	93	211618	Mr. SURESH KUMAR KOMIRISHETTY ACA H NO 16-2-147/62 ANAND NAGAR MALAKPET HYDERABAD 500036	20/10/2003
84	208437	Mr. VINU THOMAS ACA PULLOLICKAL HOUSE POOTHAKUZHY P O PAMPADY KOTTAYAM 686752	07/10/2003				



(ASHOK HALDIA)
SECRETARY